Magnum Ventures Limited

CIN: L21093DL1980PLC010492

Registered Office: HNO-MN01, Hub and Oak, E-14, Lower Ground Floor, Defence Colony,

New Delhi-110024 Phone: +91-11-42420015

E-mail: info@magnumventures.in Website: www.magnumventures.in

Date: 11th September, 2023

Department of Corporate Services	Department of Corporate Communications
BSE Limited	National Stock Exchange India Limited
Phiroze JeeJeebhoy Towers,	Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra-Kurla
Dalal Street, Fort	Complex, Bandra(E)
Mumbai-400001	Mumbai-400 051

Subject: Intimation of Newspaper advertisement of 2nd Corrigendum for Notice of AGM

Ref: Scrip Code BSE: 532896 NSE: MAGNUM

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to requirement of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of newspaper advertisement with respect to 2nd Corrigendum for Notice of 43rd Annual General Meeting, published in the following newspapers dated 10th September 2023:

- 1. Financial Express— English newspaper
- 2. Jansatta Hindi newspaper

Kindly take the same on your records.

Thanking You Yours Sincerely, For Magnum Ventures Limited



Aaina Gupta
Company Secretary cum Compliance Officer



BGIL FILMS & TECHNOLOGIES LIMITED Regd. Office: 44, 2nd Floor, Regal Building. Connaught Place, New Delhi-110001 Corporate Office: B-66, Sector-60,

Noida-201301 (Uttar Pradesh) E-mail: bgilfilms@bgilinfo.com, Website: www.bgilfilms.in Tel: 91 129 2270621-25 / Fax: 91 129 2277359 / CIN: L65993DL1989PLC035572

NOTICE

Notice is hereby given that the 34th AGM (Annual General Meeting) of the Company is scheduled to be held on 30th September, 2023, Saturday at 09.30 a.m. through Video Conference or Other Audio-Visual Means (OAVM). In compliance with general circular dated January, 13 2021 read with circulars dated April 8, 2020, April, 13 2020 and May 5, 2020 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice. As per aforesaid circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for FY 2022-

2023 has to be sent only by electronic mode to those Members whose E-mail Id are already registered with the Company/ Depositaries. The Company is also providing evoting and remote e-voting facility to all its Members similar to earlier practices. If your email ID is already registered with the Company/ Depositary, Notice of AGM along with annual report for FY 2022-2023 and login details for e-voting shall be sent to

your registered email address. In case you have not registered your email ID with the Company/ Depositary, please follow below instructions to register your email ID for obtaining annual report for FY 2022-2023 and login details for e-voting.

Physical Holding Send a request to Registrar and Share Transfer Agent of the Company, MAS Services Limited at info@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (self-attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card)

for registering email address. Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. MAS Services Limited, T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi 100020 along-with letter mentioning folio no. if not registered already.) PLEASE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 22/09/2023

Please contact your Depositary Participant (DP) and register your

Demat Holding email address as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declare by company. PLEASE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 22/09/2023.

The Notice of AGM and Annual Report for FY 2022-2023 will also be available on Company's website at www.bgilfilms.com and also on the Stock Exchanges websites at www.bseindia.com Members attending the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. For BGIL Films & Technologies Limited

Place: Delhi Date: 08.09.2023

(Akhileshwar Singh) Company Secretary

RAAMA PAPER MILLS LIMITED

(Formerly Known as Rama Paper Mills Limited) 4th Km. Stone Najibabad Road Kiratpur-246731 District Bijnor U.P. CIN: L27104UP1985PLC007556

www.ramapaper.com cs@ramapaper.com

NOTICE OF 38[™] ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND ELECTONIC VOTING INFORMATION OF RAAMA PAPER MILLS LIMITED

Annual General Meeting: Notice is hereby given that the Thirty Eighth Annual General

Meeting of the Members of M/s RAAMA PAPER MILLS LIMITED (Formerly known as M/s Rama Paper Mills Limited) will be held on Saturday, the 30th September, 2023 at 03.00 P.M. through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business mentioned in the notice. Notice of the said AGM, e-voting instructions and Annual report for the year 2022-2023 have been sent to the members of the company electronically whose email-ids are registered with the depositories. A copy of Annual Report 2022-2023 along with the AGM notice and the Instructions for Electronic Voting (evoting) will also be made available on the website of the company (www.ramapaper.com). Book Closure: Notice is also hereby given that pursuant to the Section 91 of Companies Act, 2013, read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions, if any, and in compliance with SEBI LODR Regulation, 2015 with the Stock Exchanges, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain close from 24" September, 2023 to 30" September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company scheduled on 30th September, 2023 at 03.00 pm through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM).

Electronic Voting Information: Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date 23rd September, 2023 may cast their vote electronically on the ordinary and special businesses as set out in the Notice of the 38" Annual General meeting through electronic voting system of NSDL. All the members are informed that (a) the ordinary business and special business as set out in the notice of the 38" AGM may be transacted by electronic voting (b) the date of completion of sending of notice of 38th AGM is 8th September 2023 (c) voting through electronic means shall commence at 09:00 am on 27th September, 2023 and ends at 5:00 pm on 29th September. 2023 (d) voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 pm on 29th September, 2023 (e) Notice of the 38" AGM will be made available on the company's website i.e. www.ramapaper.com and on NSDL website i.e. https: //www.evoting.nsdl.com (f) for process and manner of electronic voting, members may go through the electronic voting instructions or in case of any queries/ grievances connected with the e-voting, members may refer the frequently asked questions (FAQ's) for shareholders and the e-voting user manual for the shareholders available at the download section of https: //www.evoting.nsdl.com/ or alternatively can contact at email id of

> By order of the Board For RAAMA PAPER MILLS LIMITED (Formerly known as Rama Paper Mills Limited)

Place: New Delhi Date: 08.09.2023

company cs@ramapaper.com.

Himanshu Duggal (Company Secretary)

आईईसी एजुकेशन लिमिटेड सीआईएनः L74899DL1994PLC061053 पंजीकृत कार्यालयः ई–578, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश पार्ट-II, नई दिल्ली-110048 फोन नं: +91 11 41052893

वेबसाइट: WWW.IECGROUP.IN ईमेल: CS@IECGROUP.IN

29वीं वार्षिक आम बैठक की सुचना एवं ई-वोटिंग सुचना

एतद्वारा नोटिस दिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लाग प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियम के साथ पठित 28 दिसंबर 2022 को जारी एमसीए परिपत्रों और / य इस संबंध में 5 जनवरी 2023 को जारी सेबी परिपत्र एवं समय-समय पर जारी किए गए अन्य संबंधित परिपत्र (इसके बाद सामृहिक रूप से 'परिपत्र' के रूप में कहा जाएगा) के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों की 29वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (आईएसटी),कंपनी की 29वीं एजीएम ('ई एजीएम') आयोजित करने के नोटिस निर्धारित अनुसार कार्यवाही करने के लिए,एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति व बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम र

उक्त परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी ने उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड़ के माध्यम से वित्त

वर्ष 2023 के लिए 29वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना भेज दी है, जिनके ईमेल परे कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (पार्टिसिपेंटों ('डीपी') के साथ पंजीकृत हैं। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति सदस्यों को उसव अनरोध पर उनके पंजीकृत पते पर भेजी जाएगी। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://www.iecgroup.in/investor-relations और स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) र्क वेबसाइट www.bseindia.com और www.evoting.cdsl.com पर भी उपलब्ध हैं। वित्त वर्ष 2023 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ नोटिस का प्रेषण 6 सितंबर, 2023 को पूरा हो गया है अधिनियम की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, यथासंशोधित और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 वे प्रावधानों के अनुपालन में, कट—ऑफ तिथि यानी, गुरुवार, 21 सितंबर 2023 के अनुसार शेयर रखने वाले सदस्य 29वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय की विषयों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप रे अपना वोट डाल सकते हैं। ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया / निर्देश 29वीं एजीएम की सूचना में

इस संबंध में. सदस्यों को आगे सचित किया जाता है कि: क) सीडीएसएल (सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड को 29वीं एजीएम के लिए

ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के रूप में नियक्त किया गया है।

ख) एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट किये गए व्यवसाय को एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है।

रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 25 सितंबर 2023 (सबह 9:00 बजे आईएसटी) से शरू होगी और बुधवार, 27 सितंबर 2023 (शाम 5:00 बजे आईएसटी) को समाप्त होगी।

घ) ई—वोटिंग के प्रयोजन के लिए कट—ऑफ तिथि गुरुवार, 21 सितंबर 2023 होगी।

ड़) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित बुधवार, 27 सितंबर 2023 को शाम 5.00 बजे(आईएसटी) के बाद नहीं दी जाएगी।

बैठक में उपस्थित सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है, वे एजीएम में ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे। एजीएम में मतदान के निर्देश नोटिस में दिए गए हैं। छ) जिन सदस्यों ने ई-एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी ई-एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें ई-एजीएम में दोबारा वोट करने की अनुमति

एक व्यक्ति जिसका नाम कट—ऑफ तिथि यानी गुरुवार, 21 सितंबर 2023 के अनुसार सदस्यों वे रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिक के रजिस्टर में दर्ज है वह केवल ई-एजीएम में रिमोट-वोटिंग के साथ-साथ ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे झ) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम की

अ) जिन व्यक्तियों ने शेयर हासिल कर लिए हैं और नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी के सदस्र बन गए हैं और जो कट-ऑफ तारीख यानी गुरुवार, 21 सितंबर 2023 को पात्र शेयरधारव हैं, वे पंजीकृत ईमेल पते helpdesk.evoting@cdsl.india.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

धारा 103 के तहत कोरम की गणना के प्रयोजनों के लिए गिना जाएगा।

ट) ई—वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य सीडीएसएल की https://www.evotingindia.com/ userdocs/FAQs.pdf पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ('एफएक्यू') और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैन्अल का उल्लेख कर सकते हैं इसके अलावा, सदस्य ई–वोटिंग संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए नीचे दिए गए संपर्क

विवरण पर संपर्क कर सकते हैं: श्री राकेश डाबी, प्रबंधक (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वी मंजिल,मैराथन पयुचरएक्स, मफतलाल मिल 'गोमपाउंड्स,एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व) मुंबई—400013 अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें य

022—23058542 / 43 पर कॉल करें। श्रेय रुस्तगी, कंपनी सचिव, ई—216, प्रथम तल, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली—110065 य

cs@iecgroup.in पर ईमेल भेजें या फोन न.: 011-41052893 पर कॉल करें। डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक डिपॉजिटरी (यानी,एनएसडीएल और

सीडीएसएल) के माध्यम से ई–वोटिंग के संबंध में किसी भी मुद्दे के लिए नीचे दिए गए संपर्क विवरण पर संपर्क कर सकते हैं:

7 17 (1017)	41101341341
टोल फ्री नंबरः (022) 4886	ईमेल आईडी: helpdesk.evoting@cdslindia.com टोल फ्री नंबर: 1800 22 55 33
	कृते आईईसी एजुकेशन लिमिटे

हस्ता नवीन गुप्ता

प्रबंध निदेशक

स्थानः दिल्ली

दिनॉकः ८ सितम्बर, 2023

BHARATIYA GLOBAL INFOMEDIA LIMITED

CIN No: L74999DL1994PLC062967 Regd. Office: 44, 2nd Floor, Regal Building, Connaught Place, New Delhi-110001 Corporate Office: B-66, Sector-60, Noida-201301 (Uttar Pradesh) E-mail: kumar.pushkar@bgilinfo.com, Website: www.bgil.in Tel: +91-1204227792 / Fax: +91-1202277359 NOTICE

Notice is hereby given that the 29th AGM (Annual General Meeting) of the Company is scheduled to be held on 30th September, 2023, Saturday at 09.00 a.m. through Video Conference or Other Audio-Visual Means (OAVM). In compliance with general circular dated January, 13 2021 read with circulars dated April 8, 2020, April, 13 2020 and May 5, 2020 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice. As per aforesaid circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for FI 2022-2023 has to be sent only by electronic mode to those Members whose E-mail Id are already registered with the Company/ Depositaries. The Company is also providing e-voting and remote e-voting facility to all its Members similar to earlier

If your email ID is already registered with the Company/ Depositary, Notice of AGM along with annual report for FY 2022-2023 and login details for e-voting shall be sent to your registered email address. In case you have not registered your email ID with the Company/ Depositary, please follow below instructions to register your email ID for obtaining annual report for FY 2022-2023 and login details for e-voting

Samuel Charles of Lance Control of Control o		
	Send a request to Registrar and Share Transfer Agent of the Company, MAS Services Limited at info@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (self-attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address. Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. MAS Services Limited, T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II. New Delhi 100020 along-with letter	

mentioning folio no. if not registered already.)

Demat Holding Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declare by company. PLEASE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 22/09/2023.

PLEASE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 22/09/2023.

The Notice of AGM and Annual Report for FY 2022-2023 will also be available or Company's website at www.bgil.in and also on the Stock Exchanges websites at www.bseindia.comand www.nseindia.comMembers attending the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. For Bharatiya Global Infomedia Limited

Place: Delhi Date: 08.09.2023

Kumar Pushkar Company Secretary & Compliance Officer

एसबीएल इंफ्राटेक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नंबर 44, ब्लॉक बी-10, दूसरी मंजिल, सेक्टर -13,द्वारका, नई दिल्ली- 110070 सीआईएनः L70102DL2015PLC283877, ईमेलः cs@sblinfra.com

8वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग सूचना और बुक क्लोजर की सूचना . एतद्वारा सचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा समय–समय पर जारी सामान्य परिपत्र ("एमसीए परिपत्र/त्रों") के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके तहत निर्मित नियमों प्रयोज्य प्रावधानों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकार्य के लेन-देन हेत् एसबीएल इंफ्राटेक लिमिटेड (पूर्व में एसबीएल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के रूप प्रचलित) (कंपनी)के सदस्यों की 8वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य ऑडियो वीडियो मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को अप. 12:00 बजे आईएसटी पर आयोजित की जायेगी।

एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ तथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष की कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों के पास भेजी जायेगी जिनके ई-मेल कट-ऑफ तिथि अर्थात 01 सितम्बर 2023 को आईडी कम्पनीध्आरटीए/डिपॉजिटरी भागीदार(रों) के साथ पंजीकृत हैं। कृपया ध्यान दें कि एमसीए परिपत्रध्यों के अनसार सदस्यों के पास 8वीं एजीएम की सचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की अनिवार्यता नहीं है। सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट https://www.sblinfra.com/ पर भी उपलब्ध होगी और डाउनलोड की जा सकती है।

सदस्यों द्वारा मतदान (''ई–वोटिंग'') की सुविधा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी और इसकी विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराई जायेगी। रिमोट ई-वोटिंग 27 सितंबर, 2023 (09.00 बजे पर्वा.) प्रारम्भ होगी और 29 सितंबर, 2023(5.00 बजे अप.) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कम्पनी के सदस्य, जिनके पास कट–ऑफ तिथि 23 सितम्बर 2023 तक शेयर भौतिक प्रारूप अथवा डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप में हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के समय ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत गणपर्ति के लिए गिना जाएगा।

जो सदस्य भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करते हैं तथा उनके ई-मेल पते कम्पनीध्उनके संबद्ध डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे कृपया अपना नाम, सम्पूर्ण पता, फोलियो नम्बर, कम्पनी के धारित शेयरों की संख्या एवं पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन्ड प्रति तथ निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज अर्थात आधार कार्ड, डाइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड पासपोर्ट, युटिलिटी बिल या एजीएम नोटिस के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 प्राप्त करने के लिए कंपनी के साथ पंजीकृत सदस्य के पते के प्रमाण के समर्थन में कोई अन्य सरकारी दस्तावेज, की स्व-प्रमाणित स्कैन्ड प्रति उनके ई-मेल पते बे रेइसपदतिंण्बवउ पर भेजकर इसे पंजीकृत करा त ताकि वे वार्षिक रिपोर्ट तथा एजीएम की सचना प्राप्त कर सकें। जो सदस्य डीमैट प्रारूप में शेयर धारण करते हैं वे अपने ई-मेल पते अपने डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ अपडेट करा सकते हैं। एजीएम की सचना में रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा अपना मतदान करने की विधि के निर्देश शामिल हैं।

सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिकाएं, रविवार 24 सितंबर, 2023 से शनिवार, 30 सितंबर, 2023(दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी।

एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट उचित समय पर उनके पंजीकृत ई-मेल पतों पर प्रयोज्य कानूनों के अनुसार सदस्यों के पास भेजी जायेंगी।

कृते एसबीएल इंफ्राटेक लिमिटेड (पूर्व में एसबीएल इफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के रूप में प्रचलित अंकित शर्मा

तिथि: 08.09.2023 डीआईएन : 07238593



पीसी ज्वैलर लिमिटेड पंजी, कार्यालयः सी-54, प्रीत विहार, विकास मार्ग, दिल्ली-110092

प्रबंध निदेशक

फोन: 011-49714971, फैक्स: 011-49714972, ई—मेलः info@pcjeweller.com, वेबसाइटः www.pcjeweller.com निगमित पहचान संख्या: L36911DL2005PLC134929

18वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी

एतदुद्वारा सुचना दी जाती है कि कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 (इस संबंध में पहले जारी किए गए परिपत्रों के क्रम में) (इसके बाद 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('**सचीबद्धता विनियम**') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('**एजीएम नोटिस**') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') की 18वीं वार्षिक आम बैठक ('**एजीएम**') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस ('**डीपी**')/कंपनी/रजिस्टार और ट्रांसफर एजेंट-केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('**केफिनटेक**') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 8 सितंबर 2023 को इनका डिस्पैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ-साथ बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और केफिनटेक की वेबसाइट https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ https://evoting.kfintech.com/ से एक्सेस किया जा सकता है।

('**वीसी**')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सुचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने वीसी/ओएवीएम, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से सदस्यों की भागीदारी की सविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में केफिनटेक की सेवाएं ली हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम नोटिस में उल्लिखित ''18वीं एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग और 18वीं एजीएम में 'ई-वोटिंग' के लिए निर्देश'' को ध्यान से पढ़ें। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा बुधवार, 27 सितंबर, 2023 सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होगी और शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी और उसके बाद किसी भी रिमोट ई-वोटिंग

केवल वे सदस्य, जिनके नाम शनिवार, 23 सितंबर, 2023 ('कट-ऑफ तिथि') को सदस्यों के रजिस्टर/लाभभोगी स्वामियों की सुची में दर्ज हैं, केवल वही वोट देने (रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से और एजीएम में) के हकदार होंगे और उनके मतदान का अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा। कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के रूप में लेना चाहिए। कंपनी एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा भी प्रदान करेगी और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है, वे एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे। वे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भी भाग ले सकते हैं, लेकिन वे दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

कोई भी व्यक्ति जो एजीएम नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, वह एजीएम नोटिस में निर्दिष्ट तरीके से उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है, जो अन्य बातों के अलावा यह भी निर्धारित करता है कि सदस्य केफिनटेक के टोल फ्री नंबरः 1800-3094001 पर कॉल कर सकता है या evoting@kfintech.com पर एक ई-मेल अनुरोध भेजें। ई-वोटिंग पर किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य केफिनटेक की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/ पर उपलब्ध Help and FAQs अनुभाग पर जा सकते हैं या evoting@kfintech.com पर ई-मेल कर सकते हैं या उनके टोल फ्री नंबरः 1800-309-4001 पर

जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे दी गई (i) डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य अपने ई-मेल पते को अपने संबंधित डीपी के साथ पंजीकृत

(ii) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य केफिनटेक के साथ निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 में अपना

ई-मेल पता पंजीकृत कर सकते हैं। सदस्य कंपनी की वेबसाइट https://www.pcjeweller.com/ से फॉर्म आईएसआर-1 डाउनलोड कर सकते हैं और उनसे अनुरोध है कि वे विधिवत भरे हुए फॉर्म को केफिनटेक को अग्रेषित करें।

कृतं पीसी ज्वैलर लिमिटेड हस्ताक्षरित / -(विजय पवाँर) कंपनी सचिव ससं श्री अष्टावंनायक नेम्स<u> एड स्टोन्स प्राख्वंट लिमटेड</u> (परिसमापन में)

परिसमापक का पत्राचार पता : प्लॉट नंबर डब्ल्यूजैड-डी-9, गली नंबर 5, महावीर एन्क्लेव पार्ट-1, नई दिल्ली-110045 सम्पर्क : +91-9716633301, ई-मेल आईडी : ipskverma@gmail.com

एतदद्वारा सर्वसाधारण को ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता 2016 की धारा 35(एफ) और आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 33 के तहत ई—नीलामी के माध्यम से आस्तियों की "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है आधार" पर बिक्री हेतू सूचना दी जाती है।

नीलामी की तिथि एवं समय। मंगलवार, 03-10-2023 को 10:00 बजे से 12:00 बजे के बीच शक्रवार २९–०९–२०२३ [निविदा दस्तावेज के अनसार ऑनलाइ र्डएमडी जमा करने हेत् ट्रांसफर / डीडी के माध्यम से "श्री अष्टविनायक जेम्स ऐंड स्टोन्स अंतिम तिथि प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में)" खाता संख्या 0388110006530 वाहन का निरीक्षण दौरा तथा आईएफएससी कोड बैंक – पंजाब ऐंड सिंध बैंक, नेहरू प्लेस शाखा को देय 1

> 26-09-2023 से 28-09-2023 सम्पर्क व्यक्ति : सुमन कुमार वर्मा (एम : 9716633301)

ए. वाहन	वाहन नंबर	माडल वर्ष	सुरक्षित मूल्य	ईएमडी
टोयोटा / इन्नोवा-फरीदाबाद (डीजल)	HR51AV5013	2013	3,65,500/-	36,000/-
हंडई / आई–20–दिल्ली (पेट्रोल)	DL7CQ0448	2015	3,16,500/-	31,000/-
virus Anna 2 Ares Anna re	200	- A	-40	ATT ATT


ऑनलाइन नीलामी के विस्तृत नियम एवं शतें, ई–नीलामी आवेदन, निविदा दस्तावेज और अन्य विवर http://www.eauctions.co.in पर उपलब्ध है। किसी पूछताछ के लिए श्री सुमन कुमार वर्मा (ए 9716633301) से ई-मेल : ipskverma@gmail.com के माध्यम से सम्पर्क करें।

(सुमन कुमार वर्मा

परिसमापक (मोबाइल : 9716633301

स्थान : दिल्ली IP Reg. No.: IBBI/IPA-003/IPA-N00342/2021-2022/13657 दिनांक : 10-09-2023 ईमेल : ipskverma@gmail.com

पहचान की अपील



की कमीज, नीले रंग की पैन्ट और नंगे पैर है, का शव दिनांक 06.09.2023 को डफरिन पुल के फुटपाथ पर, लाहौरी गेट, दिल्ली में थाना लाहौरी गेट, दिल्ली के क्षेत्र में पाया गया। इस संदर्भ में DD No.

20A dated 06.09.2023 के तहत थाना लाहौरी गेट, दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज है। अगर किसी को इस शव के बारे में कोई भी जानकारी

मिले तो कृप्या निम्नलिखित फोन नम्बरों पर सूचित करें। थानाध्यक्ष थाना लाहौरी गेट दिल्ली

DP/10093/N/2023

फोन नं. 011-23953776, 8750870122

गुमशुदा की तलाश

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यह आदमी जिसका नाम सुरेश चतुवेदी, पुत्र राम स्वरूप चतुवेदी, पता- 507, पॉकेट 1, पश्चिमपुरी, दिल्ली, जोकि दिनांक 01.09.2023 को रात्रि लगभग 08:30 बजे से अपने घर से लापता है। इस संबंध में डीडी संख्या 149ए, दिनांक 01.09.2023, को पुलिस थाना पंजाबी बाग, दिल्ली, में दर्ज की गई है। स्थानीय पुलिस द्वारा इस लापता आदमी की तलाश करने की कोशिश की गयी है लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया।



इस लापता आदमी का विवरण इस प्रकार है। लिंग : पुरुष, उम्र : 53 वर्ष, कद : 5'8'', रंग : गोरा, चेहरा : लंबा, शरीर सामान्य, **पहनावा** : ग्रे शर्ट, ग्रे पायजामा, पैरों में लाल चप्पल

इस गुमश्रदा आदमी के बारे में यदि कोई जानकारी मिले तो कृपया निम्नलिखित को सचित करें:

ई-मेल : cic@cbi.gov.in फोन : 011-24368638, 24368641 फॅक्स : 011-24368639

पुलिस थाना पंजाबी बाग, दिल्ली फोन नं. : 8750871124

Regd Off: Shop No # 1, Country Inn, Mehragoan, Uttarakhand-24817

ई-मेल : sho-punjabibagh-dl@nic.in DP/10122/WD/2023

ESPIRE HOSPITALITY LIMITED

Corp Off:A-41, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi-44

CIN:L45202UR1991PLC000604,(E):cs@espirehospitality.com (T): 011-71546500 ,(W):www.espirehospitlaity.com NOTICE OF 32ND ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE E-VOTING

INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement .Regulations, 2015, Notice is given that:

The 32nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at Country In Nature Resorts, Mehragaon ,Bhimtal, Uttarakahnd- 248179 on Saturday 30 September, 2023 at 10:30 AM to transact the Ordinary/Special Business, as set out in the Notice of AGM. Electronic copies of the notice of AGM and Annual Report for 2022-23 have been sen

to all the members whose email id's are registered with the company/ depository participants .The same is also available on the comapany's website:www.wellesleycorp.com & on NSDL website http://www.evoting.nsdl.com .Phycial Copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2022-23 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on 08th September, 2023.

Members holding shares either in physical form or in dematerlialized form, as on cut-of date of 1st September,2023 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of AGN (remote e-voting). All the members are informed that remote evoting shall commence from 09:00 hours of 27th September, 2023 and shall end on 17:00 hours on 291 September, 2023 after this period the event will be no longer available for casting votes by "E-Voting" mechanism.

Persons who have acquired shares and became members of the Company after the dispatch of the notice of AGM and holding shares as on the Cut Off date of 22ⁿ September, 2023 may obtain their user ID and password for Remote E-voting from the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or NSDL. The Company's Register of Members and Transfer Books will remain closed from 24

September, 2023 to 2nd October, 2023 (both days inclusive) for the purpose of the

In case of any evoting related queries, kindly refer Frequently Asked Questions (FAQs यह दूसरा शुद्धिपत्र कंपनी की वेबसाइट 2. आगामी वार्षिक आम बैठक के संबंध में सदस्यों for members and e-voting user manual available at the Downloads sections of https://www.evoting.nsdl.com or contact at toll free no.: 1800-222-990& for grievance at Phone No. +91 22 24994600/24994738 or by e mail on evoting@nsdl.co.in. You may also conact for any grievance w.r.t e-voting, to Mr. Sumeer Narain Mathur (Company Secretary & Compliance Officer), A-41, Mohan Cooperative Induastrial Estate, New Delhi-110044 or at cs@espirehospitality.com.

For Espire Hospitality Limited

Date: 09th September,2023 Place: New Delhi

AXIS BANK

सरफासी ऐक्ट 2002 के तहत

तिथि : 10–09–2023, स्थान : नोएडा

कब्जा सूचना

(Company Secretary & Compliance Officer)

Sumeer Narain Mathur

एनपीए तिथि ''28.9.2023'' में टंकण की गलती है। एनपीए तिथि का सही विवरण 8.8.2023 पढें। इस प्रकाशन तथा मांग सुचना तिथि 9.9.2023 के शेष नियम एवं शर्तें पूर्ववत रहंगे। तिथि: 10.9.2023 एक्सिस बैंक लि. (प्राधिकृत अधिकारी) स्थानः नोएडा सार्वजनिक सूचना

एक्सिस बैंक लि.

रिटेल लैण्डिंग एंड पेमेन्ट ग्रुप (स्थानीय

कार्यालय/शाखा)ः एक्सिस हाउस, टावर-2, 2रा तल

विशटाउन, नोएडा-201301, उ.प्र., एक्सिस बैंक लि.

3रा तल, गीगाप्लेक्स, एनपीसी-I, टीटीसी इंडस्ट्रियल

एरिया, मुगालसन रोड, ऐरोली, नवी मुम्बई-400708,

पंजीकृत कार्यालयः "त्रिशूल", उरा तल, निकट

समर्थेश्वर टेम्पल लॉ गार्डन, एल्सिब्रिज,

अहमदाबाद-380006

विज्ञापन अधिसूचना सं.

०९ सित. २०२३ का शद्धिपत्र

यह समाचारपत्र फाइनांसियल एक्स्प्रैस (अंग्रेजी) तथा

जनसत्ता (हिन्दी) तिथि 9 सित. 2023 में प्रकाशित मांग

सूचना के संदर्भ में है। 1. श्री आशुतोष कुमार सिंह एवं 2.

श्रीमती अल्का सिंह की गिरवी सम्पत्ति की मांग सूचना में

राजनीतिक दल **राष्ट्रीय जनता सेना** (दल का नाम) के नाम से रजिस्ट्रीकृत होना प्रस्तावित है। पार्टी कार्यालय **27, ज्ञान विहार, निर्माण** नगर डीसीएम, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान 302019 (पुरा पता लिखें) में स्थित है। इस दल ने लोक प्रतिनिधित्व

सर्वसाधारण को यह सुचित किया जाता है कि

अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन

राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के

लिए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को

आवेदन प्रस्तुत किया है- पार्टी के

पदाधिकारियों के नाम/पता नीचे दिए गए है:-

सभापति/अध्यक्ष : बलजीत यादव महासचिव/सचिव : सुनील सैनी : मीनाक्षी रानी यादव

यदि किसी को राष्ट्रीय जनता सेना (प्रस्तावित पार्टी का नाम) के रजिस्ट्रीकरण में कोई आपति हो तो अपनी आपत्ति इसके कारणों सहित सचिव (राजनीतिक दल), भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001 को, इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर भेजें।

फॉर्म नंबर आईएनसी–26 कॉम्प्लीमेंट ब्लेंडस प्राइवेट लिमिटेड सीआईएनः U 15490 DL 2017 PTC 323323 पंजीकृत कार्यालयः ए-182, न्यू फ्रेंड्स आई-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्स्प्रैसवे, जयपी ग्रीन्स कॉलोनी, नई दिल्ली—110 065

> ईमेल आईडीः look10cos@gmail.com केन्द्र सरकार के समक्ष माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय माध्यम से

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4)तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में और इनके मामले में

कॉम्प्लीमेंट ब्लेंडस प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकत कार्यालय ए-182, न्यू फ्रेंड्र कॉलोनी, नई दिल्ली—110 065 में स्थित हैं। आवेदक कम्पनी सार्वजनिक सूचना

एतदद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है वि **कॉम्प्लीमेंट ब्लेंड्स प्राइवेंट लिमिटेड** (कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) के दिल्ली से पश्चिम बंगाल राज्य ां स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए बुधवार 16 अगस्त, 2023 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव व अनुसार कम्पनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन व क्लॉज II के परिवर्तन की पृष्टि / स्वीकृति के लिए कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 3 तथा अन्य लाग् होने वाले प्रावधानों, यदि कोई हो उसके साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धार 13 के अंतर्गत यह कम्पनी कार्यालय माननीय क्षेत्रीर निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, न दिल्ली के माध्यम से केन्द्र सरकर के पास आवेदन कर

का प्रस्ताव करती है। कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशव शिकायत प्रपत्र दाखिल कर अथवा उपरोक्त पते प पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कम्पनी को उसकी एव प्रतिलिप के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि 14 दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वार समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय तल, प दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 (e-mail rd.north@mca.gov.in), में जमा करें या जम

दिनां कः 16.08.2023 स्थानः नई दिल्ली

नगर वृत्त (दक्षिण), जयपुर दिनांक: 23/08/2023 क्रमांक: एफ.2(के)11/148/2023-24/3888-91 निविदा संख्या 15/2023-24 ाजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से इस वृत्त के अधीन विभिन्न कार्यों के लिए उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निर्धारित फ में महरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.i

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,

vww.eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। क्रम संख्या UBN No. 15/2023-24 PHE2324WSRC06903 अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,

अभियुक्त व्यक्तियों की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

वासुवेव निवासी मकान नंबर ई-1/44, मदनगीर, नई विल्ली (2) अमन उर्फ

श्री विशाल पाहजा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी)-02, कमरा नं,502 साउथ जिला, साकेत कोर्ट, नई दिल्ली

दूसरा शुद्धिपत्र दुसरा शुद्धिपत्र कंपनी की 43 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए 21 अगस्त 2023 के नोटिस के संदर्भ में जारी किया जा रहा है, जो बुधवार, 20

अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण में कार्यसूची मद संख्या 8 के संबंध में दिखाई देने वाले सुधारों को | का अनुरोध करते हैं: नोट करें जो (http://www.magnumventures. in/pdf/2nd-Corrigendum-to-Notice-of-43rd-AGM.pdf). पर उपलब्ध है ।

संख्या 1 की अन्य सभी सामग्री पहले की तरह ही

प्रदीप कमार जैन प्रबंध निदेशक

दुदरा आस्ति केन्द्र : एक्सिस बैंक लिमिटेड, एक्सिस हाउस, टॉवर टी–2, द्वितीय तल, आई–14, सेक्टर—128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा (उ.प्र.)—201301 तथा दिल्ली एवं

समर्थेश्वर मन्दिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006

एनसीआर के अन्य आरएसी। कार्पोरेट कार्यालय : 'एक्सिस हाउस', ब्लॉक–बी, बाम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुम्बई–400 025 पंजीकृत कार्यालय : 'त्रिशूल', तृतीय तल,

को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवर्णित तिथियों को ले लिया है। कर्जदार(रों) / सह-कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) / बंधकदाता(ऑं) को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतदृद्वारा सावधान किया जाता है कि इस सम्पत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार नहीं करें तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार ऐक्सिस बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। कर्जदार(रों) / सह-कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) / बंधकदाता(ओं) का ध्यान, प्रत्याभूत

आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।				
कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम	सम्पत्ति का वर्णन	मांग सूचना की तिथि		
	1	कब्जा की तिथि		
		मांग सूचना में राशि (रू.)		
 श्री शेरूदीन पुत्र श्री सलीमुद्दीन निवासी फ्लैट नंबर यूजी–1, प्लॉट नंबर 640, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन–1, साहिबाबाद, शिव चौक, गाजियाबाद, 	ब्लॉक—275, सेक्टर—एमयू—02, परिमाप	15-06-2022 06-09-2023		
उत्तर प्रदेश—201005. अन्य पता: श्री शेरूदीन फ्लैट नंबर 01 एफएफ, ब्लॉक—275, सेक्टर—एमयू—02, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश—201304, अन्य पता: श्री शेरूदीन मैक्स फैब्रीकेटर ऐंड हार्डवेयर, ग्राम—कोंडली बांगर, सेक्टर—151, ग्रेटर नोएडा एटीएस ग्रीन, उत्तर प्रदेश—201310, 2. श्रीमती परवीन पत्नी श्री शेरूदीन निवासी फ्लैट नंबर यूजी—1, प्लॉट नंबर 640, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन—1, साहिबाबाद, शिव चौक, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201005. अन्य पता: श्रीमती परवीन, फ्लैट नंबर 01 एफएफ, ब्लॉक—275, सेक्टर—एमयू—02, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश—201304.	एरिया 29.76 वर्ग मीटर, स्थित ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।	क्त. 10,02,636 / – (रूपए दस लाख दो हजार छह सौ छत्तीस मात्र)		

कराएं या पंजीकृत डाक से भेंजें। कृते कॉम्प्लीमेंट ब्लेंड्स प्राइवेट लिमिटेड अमित कुमार गनेरीवार DIN:03218895

DIPR/C/13035/2023 नगर वृत्त (दक्षिण), जयपुर।

धारा 82 सीआरपीसी देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त (1) रमन उर्फ सागर उर्फ चोटिया पुत्र

काला पत्र अशोक कमार/मकवाना निवासी नया पता: मकान नंबर 1407, ऋषि नगर, कोटला मुबारक पुर, नई दिल्ली पुराना पता: मकान नं.14/357, डीडीए फ्लैटस, मदनगीर, नई दिल्ली ने प्रथम सचना रिपोर्ट संख्या 556/2016 भा.द.सं. की धारा 302/307/324/34 के तहत एण्ड 25/27/54/59 आर्म्स एक्ट, थाना अम्बेडकर नगर, नई दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उन्होंने किया है) और उन पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया है कि उक्त अभियुक्त रमन उर्फ सागर उर्फ चोटिया और अमन उर्फ काला मिल नहीं रहे हैं और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया है कि उक्त अभियुक्त **रमन उर्फ** सागर उर्फ चोटिया और अमन उर्फ काला फरार हो गए हैं (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहे हैं)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 556/2016

भा.द.सं. की धारा 302/307/324/34 के तहत एण्ड 25/27/54/59 आर्म्स एक्ट, थाना अम्बेडकर नगर, नई दिल्ली के उक्त अभियुक्त रमन उर्फ सागर उर्फ चोटिया और अमन उर्फ काला से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 20,10,2023 को या उससे पूर्व हाजिर हों। आवेशानुसार

दि,पु./9471/दक्षिण जिला/2023

मेग्नम वेचर्स लिमिटेड शिगन क्वांटम सीआईएन: L21093DL1980PLC010492 पंजीकृत कार्यालय: एचएनओ-एमएन 01 हब और ओक, ई —14, लोअर ग्राउंड फ्लोर डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली—110024

फोन: +91-11-42420015 ईमेल : info@magnumventures.in वेबसाईट : www.magnumventures.in 43 वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस में

माध्यम से आयोजित किया जाना है ।

वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के

www.magnumventures.in और में बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और www.nseindia.com पर एनएसई लिमिटेड की तिक बंद रहेंगे। वेबसाइट परभी उपलब्ध है। 43वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस और शुद्धिपत्र

मैग्नम वेंचर्स लिमिटेड के लिए तिथि : 09.09.2023 स्थान: गाजियाबाद

के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित

कर्जदार(रों) / सह-कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) / बंधकदाता(ओं) को मांग सूचना जारी की थी, जिसमें उनसे सूचना में वर्णित बकाया राशि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः एतद्द्वारा कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/ गारंटर(रों)/बंधकदाता(ओं) तथा सर्वसाधारण

उपरि—वर्णित कर्जदार(रों) / सह–कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) / बंधकदाता(ओं) को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि वे उक्त बकाया राशि अधिनियम के सरफासी नियम 8 एवं 9 के तहत बिक्री सूचना के प्रकाशन से पहले चुकता कर दें, अन्यथा बिक्री सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की अवधि समाप्त होने पर बंधक सम्पत्तियां प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम ८ और ९ के तहत प्रावधानों के अनुसार बेची जाएंगी। प्राधिकृत अधिकारी एक्सिस बैंक लिमिटेड

टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सीआईएन: L72200DL2008PLC184341

पंजीकृत पताः श्याम क्ंज, 183–ए, सैनिक फार्म,वेस्टर्न एवेन्यू, नई दिल्ली – 110062 वेबसाइट : www.shigan-quantum.com ईमेल : investors@shigan.net वार्षिक आम बैठक की सूचना इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 15वीं

वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 28 सितंबर, सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के 2023 को सुबह 11:30 बजे आईएसटी स्टेलर रिसॉर्ट्स, एनएच–८, यवंतिका कॉलोनी, कंपनी के शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि | रजोकरी, नई दिल्ली–110038 पर आयोजित की

हम आपसे निम्नलिखित जानकारी पर ध्यान देने कंपनी ने एजीएम में वोटिंग के लिए कट—ऑफ

तारीख 21 सितंबर, 2023 तय की है। का रजिस्टर और शेयर टांसफर बुक 22 सितंबर, 2023 से 28 सितंबर, 2023 (दोनों दिन शामिल) बोर्ड के आदेश से

दिनांक: 07.09.2023 गुंजन गुप्ता कंपनी सचिव प्ररूप संख्या युआरसी-2 अधिनियम के अध्याय-XXI के भाग-1 के अधीन

रजिस्टीकरण के बारे में सचना देने का विज्ञापन

शिगन क्वांटम टैक्नोलॉजीज लिमिटेड

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374 (ख) और कंपनी (रजिस्टर करने के लिए प्राधिकत) नियम, 2014 के नियम 4 (1) के अनुसरण में) . यह सचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 366 को उपधारा (2) के अनुसरण में कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय- XXI के भाग 1 के अभीन इसके 15 दिन के पश्यात किंतु 30 दिन समाप्त होने से पूर्व रजिस्ट्रार को ऐसा एक आवेदन करना प्रस्तावित है (सीआरसी), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पीरेट अफेयर्स (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6,7,8, सेक्टर 5. आईएमटी, मानेसर, जिला गुडगांब (डरियाणा)-122050 कि भागीदारी कर्म सिसोटिया माईन्स को शेयरों द्वारा सीमित किसी कंपनी केरूप में रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा । 2. कंपनी के मूल उद्देश्य नियमानुसार हैं- मार्बल से सम्बन्धित प्रस्तावित कंपनी का ज्ञापन (ड्राफ्ट मेमोरेंडम) और

169, गुणावती रेंज, मकराना, नागौर राजस्थान 341505 पर स्थित कार्यालय में किया जा सकता है। 4. यह सचना दी जाती है कि इस आवेदन पर आक्षेप करने वाला कोई भी व्यक्ति इस सुचना के प्रकाशन की तारीख के इक्कीस दिन भीतर अपने आक्षेप रजिस्टार को लिखित में केंद्रीय

रजिस्टीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कंपनी मामलों के संस्थान (आईआईसीए) प्लाट संख्या 6, 7, 8 सॅक्टर 5, आई एमटी मानेसर, जिला गृहगांव (हरियाणा), पिन कोड-122050 को लिखित में भेज सकेगा जिसकी एक प्रति कंपनी को उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर भी भेजी जाए।. दिनांक 10 सितम्बर, 2023 आवेदक (आवेदकों) का नाम

1. मो. याकुब सिसोदिया 2. अब्दुल कादिर 3. मो. उमर 4. रहमत अलि 5. अनवर अहमद

www.readwhere.com

आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति का अवलोकन माईन्स नं.

स्थान : नई दिल्ली

| दिनांक : 06.09.2023

ANCIENT SITES IN MARRAKECH DAMAGED

Quake in Morocco kills more than 1,000



Rescuers carry out a search operation following a powerful 6.8-magnitude earthquake, in **REUTERS** Amizmiz, in Morocco on Saturday

The tremor was the biggest to hit the country in 120 years

ASSOCIATED PRESS Marrakech, September 9

A RARE POWERFUL earthquake struck Morocco late Friday night, killing more than 1,000 people and damaging buildings from villages in the Atlas Mountains to the historic city of Marrakech. The full toll was not known as rescuers struggled to get through boulder-strewn roads to the remote mountain villages hit hardest.

People woken by the magnitude-6.8 quake ran into the streets in terror and disbelief. State television showed people clustered in the streets of Marrakech, afraid to go back inside buildings that might still be unstable. The quake was the biggest to hit Morocco in 120 years, and it toppled buildings and walls in ancient cities made from stone and masonry not designed to withstand quakes.

"The problem is that where destructive earthquakes are rare, buildings are simply not constructed robustly enough to cope with strong ground shaking, so many collapse resulting in high casualties," said Bill McGuire, professor emeritus of geophysical and climate hazards at University College London.

In a sign of the huge scale of the disaster, Morocco's King Mohammed VI ordered the armed forces to mobilise air and land assets, specialised search and rescue teams and a surgical field hospital, according to a statement from the military.

Algeria offered to open its airspace to eventual humanitarian aid or medical evacuation flights to travel and from Morocco. Algeria closed the airspace when its governsevered ment diplomatic ties with Morocco in 2021 over a series

of issues. The countries have a decades-long dispute involving the territory of Western Sahara. Algerian President Abdel-

madjid Tebboune's office said in a statement that Algeria is ready to offer humanitarian aid "in solidarity with the brotherly Moroccan people, in case the authorities of the

Moroccan kingdom express a wish for this." The statement also offered to reopen the airspace, and condolences for the dead and "deepest compassion" for the injured.

immediately clear

World leaders offered to send in aid or rescue crews as condolences poured in from countries around Europe, the Middle East and a Group of 20 summit in India.

In Marrakech, the famous In an exceptional move, Koutoubia Mosque, built in the 12th century.

In Marrakech, the was damaged, but famous the extent was not Koutoubia immediately clear. Its 69-meter Mosque, built in

minaret is known the 12th century, as the "roof of was damaged, Marrakech." but the extent Moroccans also was not

posted

videos

showing damage

to parts of the famous red walls that surround the old city, a UNESCO World Heritage site. At least 1,037 people died, mostly in Marrakech

and five provinces near the quake's epicentre, and another 1,204 people were injured, Morocco's interior ministry reported. Of the injured, the ministry wrote, 721 were in critical condition.

More voice to funds for Global South

AANCHAL MAGAZINE New Delhi, September 9

A PUSH FOR "bigger, better and more effective" multilateral development banks, a fully functional dispute settlement system under the World Trade Organisation, and a regulatory framework for crypto, debt resolution, financial inclusion and digital public infrastructure, were some of the key economic outcomes under the G20 New Delhi Leaders' Declaration on Saturday.

Terming it as a "people-centric, action-oriented and farsighted"approach, Union finance minister Nirmala Sitharaman said the outcomes reflect a "shared path for all", ensuring that no country, especially those from the Global South, is left behind. "It has been very clear in our

mind that we should ensure that no one is left behind in our pursuit of global solutions, so we have endeavoured to support countries, especially those from the Global South to be an integral part of the decision-making processes. The G20 is a very diverse group, each country is at



Declaration in New Delhi. Finance minister Nirmala Sitharaman, external affairs minister S Jaishankar and other dignitaries are also seen

different milestones of economic development and their trajectory is also very different in achieving their developmental goals. So, through well-curated debates and careful assimilation of all the perspectives, the Indian Presidency has crafted solutions that resonate with each member,

offering a shared path forward for all," she said.

Sitharaman said there was agreement among G20 nations for "better, bigger and more effective" MDBs, which she termed as necessary because of high developmental demands from all across the globe. "This is also going to contribute to enhancing the representation and voice of developing countries in decision making," she said.

There has been an agreement to boost the World Bank's financing capacity and options will be explored to enhance the headroom of The International Bank

Tax notices to startups on

for Reconstruction and Develop ment (IBRD or World Bank) to support low-income and middleincome countries, she said.

Sitharaman further said that the implementation of the capital adequacy framework and the measures thereby will potentially

yield additional lending head-

room of approximately \$200 bil-

lion over the next decade.

The G20 independent export group on strengthening MDBs has already submitted its first volume of the report recommending a triple agenda to address eliminating extreme poverty, inclusive growth and the financing of global public goods along with a sugges tion to constitute a 'Global Chal lenges Funding' mechanism for 'Global Public Goods'. The second volume of the report will be taken up for discussion at the World Bank and IMF annual meetings in Marrakech in October.

On the issue of common norms for crypto, Sitharaman said the global push for clearer policies on crypto assets has gained momentum under the Indian presidency and the global consensus is emerging on the same.

Chandrababu Naidu arrested for alleged siphoning of funds

PRESS TRUST OF INDIA Amaravati, September 9

TDP CHIEF N Chandrababu Naidu was on Saturday named as the 'principal conspirator' by the Andhra Pradesh police in the Skill Development Corporation scam, causing a loss of ₹300 crore to the state government.

Naidu was arrested in connection with the fraud in an early morning police operation which involved officers knocking on the door of the caravan in which he was sleeping. The former CM was arrested by the CID police around 6 am from a marriage hall (outside which his caravan was parked) at Gnanapuram in Nandval.

Addressing reporters after Naidu's arrest, APCID chief N Sanjay said the investigation implicated the former AP CM and TDP as beneficiaries of misappropriation of funds."...this case revolves around the establishment of clus-

Bilcare

ters of Centers of Excellence (CoEs) in the state of Andhra Pradesh, with a total estimated project value of ₹3,300 crore. The alleged fraud has caused huge loss to the Government of Andhra Pradeshin excess of ₹ 300 crore,"he said.

Reacting to his arrest, Naidu in a post on X (formerly Twitter), said, "For the past 45 years, I have selflessly served Telugu people. I am prepared to sacrifice my life to safeguard the interests of Telugu people. No force on earth can stop me from serving Telugu people, my #AndhraPradesh and my motherland.""Finally, truth and dharma will triumph. Whatever they do to me, I will march forward for the people," he said. According to Sanjay, the state-

ment of public officials recorded under section 164 CrPC clearly points to the involvement of former AP CM as the principal decision maker to release the money in advance. Chandrababu Naidu."

investors' creditworthiness The tax department PRESS TRUST OF INDIA

New Delhi, September 9

THE INCOME TAX Department has slapped notices on some startups seeking information on creditworthiness of their investors as it looked to verify if the amount invested was commensurate with the income declared by the investors. The tax department replying

to a social media post of BharatPe co-founder and former MDAshneer Grover, said under the law, the onus was on the assesseecompany to provide the identity and creditworthiness of the investors as well as the genuineness of the transaction. "In the last one month, a

number of startups (a few in my portfolio as well) have received Income Tax notices asking to furnish information about shareholders,"Grover had said on a post on X, formerly Twitter, on September 8.

"Bahut interesting hai (it is

replying to a social media post of BharatPe

co-founder and former MD Ashneer Grover, said under the law, the onus was on the assessee-company to provide the identity and creditworthiness of the investors

very interesting) — they are asking start-up companies to furnish a 3 year ITR (income tax return) of all shareholders." He went on to ask how and why the startup would have ITR of shareholders. "Why would a shareholder/individual share their ITR with a private company?" He went on to state that the reason given is to 'to establish creditworthiness of shareholders'. "Why," he asked. Com-

equity in the firm, he added, asking the finance ministry to look into this. Replying to him, the Income

Tax Department in a post on X said, "Section 68 of Income-tax Act, 1961 (the Act) under which the Assessing Officer (AO) has made the enquiry about credit worthiness of the shareholder/ investor, places initial onus on the assessee-company to prove the following: a) Identity of the investor, b) Creditworthiness of the investor and c) Genuineness of the transaction." It went on to state that the

"Finance Act, 2012 mandated that the nature and source of any sum credited as share capital share premium etc., in the books of a closely-held company (excluding Venture Capital Fund or a Venture Capital Company registered with SEBI) shall be treated as explained u/s 68 only if the source of funds from a res ident shareholder is also explained by investor."

PRABHHANS INDUSTRIES LIMITED CIN: L70200TG1993PLC016389

Registered Office address: PLOT NO.270E/A, MCH NO.985 ROAD NO.10, JUBILEE HILLS HYDERABAD Hyderabad Telangana 500033 India Website: www.prabhhansindltd.in E-mail ID: seagoldacqa@gmail.com NOTICE OF 29th ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting (AGM) of the members of

Prabhhans Industries Limited (the Company) will be held on Saturday, 30th day of September 2023 at 04:00 P.M. IST through Video-Conferencing/Other Audio-visual means(VC/OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder read with General Circular issued from time to time, respectively circulars issued by the Ministry of Corporate Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year ender March 31, 2023 of the Company has been sent to all the members, whose email ids an

registered with the Company/RTA/Depository participant(s), as on the cut-off date i.e. 01s September, 2023. Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars The Notice and the Annual Report will also be available and can be downloaded from the website of the Company www.prabhhansindltd.in The facility of casting the votes by the members ("e-voting") will be provided by Central Depository Services (India) Limited('CDSL') and the detailed procedure for the same is provided in the Notice of the AGM. The remote e-voting period commences on 27"

September, 2023 (09:00 A.M.) and end on 29th September, 2023 (05:00 P.M.) During this

period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 22rd September, 2023, may cast their vote by remote e-voting or by e-voting at the time of AGM. Members participating through in person shall be counted for reckoning the quorum under Section 103 of the Act. Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresse are not registered with the Company/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signer letter by the Member(s) mentioning their name, complete address, folio number, number of shares held with the Company along with self-attested scanned copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of any one of the following documents viz., Aadhar Card, Driving

shares in demat form can update their email address with their Depository Participants. The notice of the AGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders | can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of AGM. The Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, 23rd September, 2023 to Saturday, 30th September, 2023 (both days inclusive). 6. The Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2022-23 sent to members in accordance with the applicable provisions in due course.

recommending a Special Resolution for the shareholders.

License, Election Card, Passport, utility bill or any other Govt. document in support of the

address proof of the Member as registered with the Company for receiving the Annual Report

2022-23 along with AGM Notice by email to seagoldacqa@gmail.com . Members holding

For Prabhhans Industries Limited Satnam Singh Director & CFO DIN: 09526002

REGD. OFFICE: E-10-11 & F-14 TO 16, RIICO INDUSTRIAL AREA, SITAPURA, JAIPUR (RAJASTHAN) - 302022

CIN: L24117RJ1991PLC006307. Tel. No.: 0141-2770202/03

E-mail address : com.sec@poddarpigmentsltd.com, Website address : www.poddarpigmentsltd.com

(In connection to the 32nd Annual General Meeting Notice of Poddar Pigments Limited)

NOTICE is hereby given to all members of Poddar Pigments Limited ("Company") to clarify that

Company had issued NOTICE dated 5th August, 2023 for its 32nd Annual General Meeting

(AGM), scheduled on 27th September, 2023, Wednesday at 11.00 A.M. at Crowne Plaza,

Sitapura Industrial Area, Tonk Road, Jaipur – 302022, Rajasthan, to transact the 7 (seven)

businesses, out of which 4 (four) are Ordinary and remaining 3 (three) are Special. One of the

Special Businesses at Serial No. 6 has been inadvertently mentioned as an Ordinary Resolution

instead of a Special Resolution in the printed file. Accordingly, Item No. 6 of the Special Business

and in its Explanatory Statement be read as Special Resolution instead of Ordinary Resolution. All

references, if any, made in the 32nd Annual Report of the Company for the financial year 2022-23

or elsewhere, with respect to the appointment of Shri R. Mohan (DIN:01492721), be construed as

The Errata to AGM Notice is issued in continuation of and should be read in conjunction with the

original AGM Notice which was already emailed to the shareholders on 2nd September, 2023. All

other contents of the AGM Notice, save and except as mentioned in the Errata, shall remain



2[™] Corrigendum to the Notice of 43[™]AnnualGeneral Meeting

The 2nd Corrigendum is being issued in continuation of the Notice dated 21st August 2023 for the 43rd Annual General Meeting (AGM) of the Company, which is to be held on Wednesday, 20 September 2023 through Video Conferencing (VC).

The Shareholders of the Company are requested to take note off the corrections as appearing with respect to Agenda/Item no. 8 to the Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 which is available on (http://www.magnum ventures.in/pdf/2nd-Corrigendum-to-Notice-of-43rd-AGM.pdf)

This 2nd Corrigendum is also available on Company's website at www.magnumventures.in and website of BSE Limited at www.bseindia.com and NSE

Limited at www.nseindia.com All other contents of the Notice of the 43' Annual General Meeting & Corrigendum no 1 remains same as before

For Magnum Ventures Limited

Pardeep Kumar Jain Managing Director



Bilcare Limited

Regd. Office: 1028, Shiroli, Pune 410505. Tel.: +91 2135 647501 Email: cs@bilcare.com Website: www.bilcare.com

Book Closure & E-voting Information of Bilcare Limited

of Bilcare Limited will be held on Friday, 29th September 2023, at 12.30 p.m (IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means "OAVM"), to transact the business, as set out in the Notice of the Annual General Meeting which is being circulated for convening the Annual

Pursuant to the General Circulars 2/2022 and 19/2021, other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by SEBI (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), companies are allowed to hold AGM through VC, without the physical presence of members at a common venue. Hence, in compliance with the Circulars, the AGM of the Company is being held through VC.

the financial year 2022-23 is sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars and circular issued by SEBI. Members may note that the Notice of Annual General Meeting and Annual Report for the financial year 2022-23 will also be available on the Company's website www.bilcare.com; website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the Annual General Meeting are provided in the Notice of the Annual General Meeting. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

its Members as of the cut-off date i.e Thursday, 21 September 2023 to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the Annual General The E-voting as aforesaid will commence on Tuesday, 26 September 2023, 9.00 A.M. IST and ends on Thursday, 28 September 2023, 5.00 P.M. IST. The E-voting shall not be allowed beyond 05:00 P.M. IST) on 28 September 2023. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the Annual General Meeting ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/ e-voting is ovided in the Notice of the Annual General Meeting Registration of E-mail ID details: In case the shareholder's email ID is already registered with the

Company/its Registrar & Share Transfer Agent "RTA"/Depositories, log in details for e-voting are being sent on the registered email address. In case the shareholder has not registered his/her/their email address with the Company/its RTA/Depositories; the following instructions to be followed: (i) Shares held in Physical mode:

Kindly submit letter duly signed by the shareholder(s) alongwith self attested copies of PAN Card and Address Proof requesting our RTA, Link Intime India Private Ltd. to update their Email ID

and register their email address in the demat account as per the process followed and advised by the DP

Link Intime India Private Limited to its email address pune@linkintime.co.in. Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule No.10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the company shall remain closed from Friday, 22 September 2023 to Friday, 29 September 2023 (both days inclusive)) for the purpose of 36th Annual General Meeting of the Members of the Company.

By the order of the Board of Directors For Bilcare Limited

Date: 8" September, 2023

Place : Pune

"IMPORTANT" Whilst care is taken prior to acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies. associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Nagesha N. Folio Number N00697 (PAN AAJPN2160M), holding 10 shares of Face Value Rs. 100/-in Bosch Limited (formerly: Motor Industries Company Limited) having its registered office at Hosur Road, Adugodi, Bangalore-560030 in Folio N00697 bearing Share Certificate Numbers 00101834 and 00238502 with Distinctive Numbers from 1902024 - 1902028 and 3429919 - 3429923. hereby give notice that the said Share Certificate(s) are lost and I have applied to the Company for issue of duplicate Share Certificates and exchange of the same with Face Value Rs.10/- certificate

or dealing in anyway with the said Share Certificates. The Company may issue duplicate Share Certificates if no objection is received by he Company within 30 days of the publication of this advertisement, after which no claim will be entertained by the Company in that behalf.

The public is hereby warned against purchasing

Place: Ahmedabad Date: 8th September, 2023

pany shareholders aren't given

loans and instead are putting

Patron Exim Limited CIN: U24100GJ2022PLC134939

Registered Office: 411, Safal Perlude, B/h Ashwaraj Bunglows, 100 FT Road, . Prahladnagar, Vejalpur, Ahmedabad Gujarat - 380015

Telephone: +91 9979978393, Website: www.patronexim.com, E-mail: info@patronexim.com

NOTICE OF THE 1st ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY, RECORD DATE AND E-VOTING:

NOTICE is hereby given that in view of MCA General Circular No. 14/2020 dated 08th April, 2020, Circular No.17/2020 dated 13th April, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs followed by Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020 and Circular No. 02/2022 dated 05th May, 2022 and Circular No. 10/2022 & 11/2022 dated 28th December, 2022 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") andrelevant circulars if any issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") and all other relevant circulars issued from time to time for holding of 1stAnnual General Meeting through VC or OAVM facility provided by the Bigshare Services Private Limited("Bigshare") without the physical presence of Members at a common venue, the First(1st) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Patron Exim Limited ("Company") will be held on Saturday, the 30th day of September, 2023 at 04.00 p.m. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of 1stAGM. The Company has made necessary arrangement

with Bigshare Services Private Limitedfor facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. In accordance with the above-mentionedMCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of 1stAGM along with Annual Report 2022-23have been sent on 6th September 2023through electronic mode only to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories. Member may note that the Notice of 1stAGM and Annual Report 2022-23have been uploaded on the website of the Company at www.patronexim.com, website of BSE Limited at www.bseindia.com and website of Bigshare Services Private Limited(agency providing remote e-voting facility) at https://ivote.bigshareonline.com.

In case Members have not registered their e-mail addresses with the Company/ Depositories, please follow the below instructions to temporarily register e-mail address to obtain login details for e-voting:

(A) For members holding shares in physical mode - please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by e-mail to info@patronexim.com or to ivote@bigshareonline.com

beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN

(B) Members holding shares in demat mode - please provide details like DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit

card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by e-mail to info@patronexim.com or to There being no physical shareholders in the Company, the Register of members and share transfer books of the Company is not required to close. Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of

Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Saturday, 23rd September, 2023 ("Cut-off date"), shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting on the 1stAnnual General Meeting. REMOTE E-VOTING AND E-VOTING DURING AGM: -

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), MCA Circulars and SEBI Circulars, the Company is providing facility of remote e-Voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has made necessary arrangement with Bigshare Services Private Limitedfor facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a member using remote e-Voting system as well as voting on the day of AGM will be provided by Bigshare Services Private Limited.

The remote e-voting will commence on 9:00 A.M. onTuesday, 26th September 2023 and will end on 5:00 P.M. on Friday, 29thSeptember2023. During this period, the members of the Company holding shares as on Cut-off date may cast their vote electronically (Remote E-Voting). Members may note that a) the remote e-voting module shall be disabled by Bigshare after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility of e-voting shall be made available at the 1stAGM; and c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the 1stAGM may also attend the 1stAGM but shall not be entitled to cast their vote again. Detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of the 1stAnnual General Meeting.

Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of 1stAGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Saturday, 23rdSeptember, 2023, are requested to refer to the Notice of 1stAGM for the process to be adopted for obtaining the USER ID and Password for casting the vote.

In case you have any gueries or issues regarding Login/e-voting, they may send an e-mail to ivote@bigshareonline.comor Contact on Tel: 022-49186175.Members may also contact Mr.Narendrakumar Gangaramdas Patel, Managing Directorof the Company at the registered office of the Company or may write an e-mail toinfo@patronexim.comor may call on +91 9979978393 for any further clarification. JOINING THE AGM THROUGH VC/OAVM

Members can attend and participate in the 1stAnnual General Meeting through VC/OAVM facility only. The instructions

for joining the 1st Annual General Meeting are provided in the Notice of the 1stAnnual General Meeting. In case the shareholders/members have any queries or issues regarding participation in the 1stAGM, you can write an email to ivote@bigshareonline.comor Contact on Tel: 022-49186175. Members attending the meeting through VC/0AVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. For, Patron Exim Limited

Narendrakumar Gangaramdas Patel

Managing Director DIN:07017438

financialexp.epapr.in

Date: 9th September, 2023

unchanged.

Place : Jaipur

Place: Hyderabad

Date: 08-09-2023

FCS No. 9382

For Poddar Pigments Limited

Sd/-

Anil Kumar Sharma

Company Secretary

Research

CIN: L28939PN1987PLC043953 Notice to the Shareholders of 36th Annual General Meeting,

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting of the Members

The Notice of the Annual General Meeting along with the Annual Report for

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to al

ii)Shares held in Demat mode: The shareholder may please contact the Depository Participant ("DP"

All communications/queries in this respect should be addressed to our RTA

Prabhavi Mungee Company Secretary

New Delhi